



Ref. No. SIL/CHD/2021-22/160721

DATED:16.07.2021

The President
Corporate Relation Department
Bombay Stock Exchange Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
25th Floor, Dalal Street,
Mumbai – 400001

BSE Scrip Code: 526951

Trading Symbol: STYLAMIND

Sub: Publication of Un-Audited Financial Results (Standalone and consolidated) for the Quarter ended June 30,2021.


Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Un-Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the Quarter ended June 30,2021 have been published by the Company in the prescribed format in the Newspapers "The Financial Express "and "Jansatta" dated on 16.07.2021

You are requested to please take above information on your record

Thanking You,

For Stylam Industries Limited


Jagdish Gupta
Managing Director



Stylam Industries Limited

Regd. Office: SCO 14, Sector 7 C, Madhya Marg, Chandigarh (INDIA)-160019 **T:** +91-172 - 5021555/5021666 **F:** +91-172-5021495

Works I: Plot No. 192 - 193, Industrial Area Phase -1 Panchkula (Haryana) INDIA - 134109 **T:** +91-172-2563907/2565387

Works II: Village Manak Tabra towards Raipur Rani, Mattewala Chowk, Distt. Panchkula (Haryana)

W: www.stylam.com **CIN:** L20211CH1991PLC011732 (Govt. of India recognised Star Export House)

THE ADMINISTRATION OF UNION TERRITORY OF LADAKH
Information Technology Department, Ladakh
Ladakh e-Governance Agency (LeGA), Ladakh
E-mail: ladakhgovagency@gmail.com
NOTICE INVITING e-TENDER
Bid Number: **GEM/2021/B/1357745**

For and on behalf of Lt. Governor, UT Ladakh, e-tenders are invited from eligible bidders who have the necessary qualifications to carry out the supply, installation, testing, linking, commissioning and thereafter provide Network Operation and Management Services for complete Ladakh State Wide Area Network (SWAN) for a period of Five years.

Sr. No.	Description	Date
i)	Date of Publishing of Tender Notice	14/07/2021
ii)	Pre-Bid Meeting (link will be provided to the interested Bidders)	20/07/2021 4:00 PM
iii)	Online Submission End Date	04/08/2021 3:00 PM

The tender is available for submission at <https://gem.gov.in/> INFO-240

Himadri Speciality Chemical Ltd
CIN: L27106WB1987PLC042756
Regd. Office: 23A, Netaji Subhas Road, 8th Floor, Kolkata- 700 001
Corp. Office: 8, India Exchange Place, 2nd Floor, Kolkata- 700 001
Ph No: 91-033-22309953/ 22304363 Fax: 91-033-22309051, Website: www.himadri.com

Notice
Sub: Update of Email id, PAN and Bank Mandate of Shareholders

Notice is hereby given that in view of the ongoing novel Coronavirus pandemic ("COVID-19") in the Country, several measures have been taken by Government to curb the spread of virus through social distancing. There are restrictions on movement and / or gathering of persons and have impact on several services including postal and courier services.

Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India vide their circular no 02/2021 dated 13 January 2021 read with Circular no. 20/2020 dated 05 May 2020 has allowed Companies to conduct their Annual General Meeting (AGM) through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM), during the calendar year 2021 (i.e till December 31, 2021). The Circular 20/2020 has also dispensed with the printing and dispatch of annual reports to shareholders and the same shall be sent only by email to the members of the Company.

Further SEBI vide its circular dated 15 January 2021 read with circular dated 12 May 2020 has also dispensed with the requirement of sending physical copies of annual report to shareholders for listed entities who conduct their AGMs during the calendar year 2021 (i.e. till December 31, 2021)

In view of the above we urge the shareholders for registration and/ or updation of their email id, Permanent Account Number (PAN) and bank mandate with the Company to ensure receipt of Annual Report, dividend and/or any other consideration and other communication timely, faster and easier and more importantly avoids fraudulent encashment of warrants.

Accordingly, to update the details with the Company, the following procedure may be followed:

Updating/ Registration	Procedure
Email Id & PAN	Physical Holding: An email requesting for updation/ registration of mail id with a copy of PAN card and mentioning folio number may send to the Company's email id at investors@himadri.com or, Company's Registrar and Share Transfer Agent email id at skcdilip@gmail.com
Bank Mandate	Demat Holding: Update the email id / PAN through your Depository Participant.
	Physical Holding: An email requesting for updation/ registration of Bank Mandate with a copy of PAN card, cancelled cheque with name printed on cheque, copy of share certificate or any letter received from company or dividend warrant where folio number is mentioned may send to the Company's email id at investors@himadri.com or, Company's Registrar and Share Transfer Agent email id at skcdilip@gmail.com
	Demat Holding: Update the Bank mandate through your Depository Participant

It would be highly appreciated that the shareholders co-operate and support and do the needful at the earliest.

For Himadri Speciality Chemical Ltd
Sd/-
Monika Saraswat
Company Secretary
ACS : 29322

Place: Kolkata
Date : 16 July 2021

ROLLATAINERS LIMITED
(CIN: L21014HR1968PLC004844)
Regd. Office: Plot No. 73-74, Phase- III, Industrial Area, Dharuhera, District-Rewari
Rewari-123106
Phone: 01274-243326, 242220
E-mail: cs.rollatainers@gmail.com
Website: www.rollatainers.in

POSTPONEMENT OF BOARD MEETING
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that due to unavoidable circumstances the meeting of Board of Directors of the Company which was re-scheduled to be held on Thursday, July 15, 2021, is now postponed and further re-scheduled to be held on Friday, July 23, 2021 inter alia, to consider, approve and take on record the Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year ended on March 31, 2021.

The said Notice may be accessed on the Company's website at www.rollatainers.in and the website of BSE www.bseindia.com and NSE i.e. www.nseindia.com

For Rollatainers Limited
Sd/-
Pyush Gupta
(Director)
Date: 15.07.2021
Place: New Delhi
DIN: 03392865

Form No. INC-26
(Pursuant to rules 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014)
Before the Central Government, (Regional Director Haryana) Northern region

In the matter of sub-section (4) of section 13 of Companies Act, 2013 and clauses (a) of Sub-rule (5) of rule 30 of the companies (incorporation) rules 2014 and

In the matter of Algomind Wealth Management Private Limited having its registered office at office No.63 sector- 4, Lane Canon Enclave, Gurgaon, Haryana - 122001

.....Petitioner
Notice is hereby given to the General Public that the company propose to make application to the Central Government (Regional Director, Northern Region Haryana) under section-13 of the company Act,2013 seeking Confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in the terms of the special resolution passed at Extra ordinary general meeting held on 06th July, 2021 to enable the company to change its Registered Office from "State of Haryana to the National Capital Territory of Delhi".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or sent by registered post of his / her objection supported by an affidavit stating the nature of his / her are interest and grounds of opposition to the Regional Director at Northern Region, B-Block, Paryavaran Bhawan CGO Complex Lodi Road New Delhi 110003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy of the applicant company at register office at the address mentioned below

office number 63 Sector 4 Lane Canon Enclave Gurgaon Haryana - 121001

STYLAM INDUSTRIES LIMITED
CIN: L2021CH1991PLC011732
REGD. OFFICE: SCO 14SECTOR 7 C MADHYA MARG CHANDIGARH -160019
Email: cs@stylam.com, web: www.stylam.com

STATEMENT OF UN-AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2021
Rs in Lakhs

Sr. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter ended		Annually		Quarter ended		Annually	
		30-Jun-21	31-Mar-21	30-Jun-20	31-Mar-21	30-Jun-21	31-Mar-21	30-Jun-20	31-Mar-21
1	Total Income from Operations	13,118.65	17,082.81	7,034.94	48,063.51	13,118.65	17,082.81	7,034.94	48,063.52
2	Net Profit / (Loss) for the period before Tax, and before Exceptional and/or Extraordinary Items	1,911.64	2,836.25	748.45	7,097.49	1,911.64	2,840.14	745.83	7,092.03
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax, and after Exceptional and/or Extraordinary Items	1,911.64	2,836.25	748.45	7,097.49	1,911.64	2,840.14	745.83	7,092.03
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax, and Exceptional and/or Extraordinary Items	1,388.61	2,344.00	559.51	5,530.42	1,388.61	2,347.91	556.89	5,524.97
5	Total Comprehensive Income for the period	1,391.47	2,349.35	544.40	5,541.32	1,379.81	2,329.27	541.78	5,522.33
6	Equity Share Capital	847.40	847.40	847.40	847.40	847.40	847.40	847.40	847.40
7	Reserves as shown in the Audited Balance Sheet for the previous Year				25,120.74				25,097.78
8	Earning per Share								
	- Basic	8.19	13.84	3.30	32.63	8.19	13.85	3.29	32.59
	- Diluted	8.19	13.84	3.20	32.63	8.14	13.85	3.19	32.59

Note: The above is an extract of the detailed format of un-audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended on 30th June 2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the un-audited Standalone and Consolidated Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange www.bseindia.com and Listed company www.stylam.com

For and on behalf of Board of Directors
Sd/-
Jagdish Gupta
Managing Director

Place: Chandigarh
Date: 15th July 2021

Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life

POSSESSION NOTICE

Notice is hereby given under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice on the date mentioned below in the table and stated hereinafter calling upon them to repay the amount within 60 days from the date of receipt of said notice.

The borrower and guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him / her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said Act on the date mentioned below in the table.

The borrower and guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of Punjab & Sind Bank for the amount and interest thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Name of Borrower and Guarantor	Description of the property mortgaged / charged	Date of Demand Notice Date of Possession	Amount Outstanding (in Rs.)
Borrower: Sh. Vinod Kumar S/o Joginder Pal Co-Borrower: Sh. Mayur Dhawan S/o Vinod Kumar Guarantor: Smt. Savita Dhawan W/o Vinod Kumar	Property Owned By: Sh. Vinod Kumar All that Part and Parcel of Property no. 385/A/3-A, built on plot no.12 with terrace/ roof right to the last storey, area measuring 54.34 sq.mtrs., approx., Gali no.15, East Azad Nagar, Delhi-110051, sale deed registration no.8147 in book no.1 vol. no.632 on page 34 to 42 dated 29.12.2015 in SR IVB Vivek Vihar, New Delhi.	07-04-2021 15-07-2021	Rs. 13,61,792.31 plus further interest, expenses & other charges e.t.c. thereon.

Date : 15-07-2021, Place : New Delhi Authorised Officer, Punjab & Sind Bank

"Form No. INC-25A"
Advertisement to be published in the newspaper for conversion of public company into a private company
Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs
Delhi and Haryana Region

In the matter of the Companies Act, 2013, section 14 of Companies Act, 2013 and rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

And

In the matter of M/s Parmesh Construction Company Limited (CIN-U45201DL1996PLC077019) having its registered office at Plot No. 3 & 4, Second Floor, Savitri Bhawan, A Block Market Preet Vihar, Delhi-110092 Applicant.

Notice is hereby given to the general public that the company intending to make an application to the Regional Director (power delegated to Regional Director by the Central Government vide Notification No. S.O.6225('E) dated 18th December, 2018) under section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of converting into a private limited company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 14th Day of June 2021 to enable the company to give effect for such conversion.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/status of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the concerned Regional Director at Registrar of Companies, 4th Floor, IFCI Tower, 61, Nehru Place, Delhi-110019, within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

For and on behalf of the Applicant
Parmesh Construction Co. Ltd.
Prem Bhutani
Director
DIN:00809853
Date:05th July 2021
Place:Delhi
Address: Plot No.3&4, Second Floor
Savitri Bhawan,A Block Market
Preet Vihar, East Delhi -110092

DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT OF DELHI
OFFICE OF THE ASSISTANT COMMISSIONER (D)
VARUNALAYA PHASE-II: KAROL BAGH
NEW DELHI-110005

PUBLIC NOTICE

STOP CORONA- "WASH YOUR HAND" "WEAR MASK" "MAINTAIN SOCIAL DISTANCING"

DELHI JAL BOARD
ENGAGEMENT OF CONSULTANT (LAW)

Applications are invited from candidates for engagement of Consultant (Law) in Delhi Jal Board, having experience of atleast 10 years of Legal matters and worked as Chief Law Officer/Law Officer in Pay Band-4 in any reputed Government Institute or a member of State Judicial Service having 16 years experience. The age of applicant should be less than 65 years as on closing date of receipt of application. The application must reach the office of Assistant Commissioner (D), Delhi Jal. Board, Room No-211, Second Floor, Varunalya Phase-II, Karol Bagh, New Delhi-110005 within 15 days of publication of this advertisement. The application format can be downloaded from Delhi Jal Board website i.e. www.delhijalboard.nic.in

Sd/-
(VIRENDER SINGH)
ASSTT. COMMISSIONER (D)

ISSUED BY PRO (WATER) Advt.
No. J.S.V. 185 (2021-22)

BRAITHWAITE & CO. LIMITED
(A Govt. of India Undertaking)
5, Hide Road, Kolkata - 700 043

Tender No.: BCL/PUR/FAB/BCNAHSM1/2021/R

Sealed Tenders are invited in Two-bid system for engagement of contractor for Preparation, Fabrication & Assembly of BCNAHSM1 (Design D) Wagons along with supply of some components/consumables in the workshop of BCL as per tender conditions.

Last date of submission of Tender is 14 days from the date of publication (both days inclusive). Interested parties may download the documents from our website www.braithwaiteindia.com. Offer can be submitted as per tender conditions against payment of Rs. 1000/- (non refundable) by Bank Draft / Pay Order in favour of "Braithwaite & Co. Ltd", payable at Kolkata, towards cost of tender document. All TCNs & Corrigendum etc. will be notified in our website www.braithwaiteindia.com only.

Sr. Executive (Purchase)

SHARMA EAST INDIA HOSPITALS & MEDICAL RESEARCH LIMITED
Corporate/ Regd. Office: Jaipur Hospital, Near SMS Stadium, Lal Kothi, Tonk Road, Jaipur-302015 (Raj.)
CIN: L85110RJ1989PLC005206, Tel. No: 0141-2742557/ 2742266, Fax No.: 0141-2742472
E-mail: sharmaeastindia@gmail.com, Website: www.jaipurhospital.co.in

Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March, 2021
(Rs. in Lakh, except per share data)

S. N.	Particulars	Quarter Ending 31.03.2021 Audited	Quarter Ending 31.03.2020 Audited	Year Ended 31.03.2021 Audited	Year Ended 31.03.2020 Audited
1	Total Income from Operations	211.04	393.49	813.05	1616.73
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	100.15	19.09	83.65	37.71
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	100.15	19.09	83.65	37.71
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	80.22	11.98	63.72	30.60
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	80.22	11.98	63.72	38.83
6	Equity Share Capital	328.38	328.38	328.38	328.38
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
1. Basic:		2.44	0.36	1.94	1.18
2. Diluted:		2.44	0.36	1.94	1.18

Notes: (1) The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 14.07.2021. The Statutory Auditors of the company has carried out Audit of the Financial Results for the year ended 31st March, 2021 as required under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. (2) The above is an extract of the detailed format of Quarterly and year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Yearly Financial Results are available on the Company website www.jaipurhospital.co.in as well as on the Stock Exchange website www.bseindia.com. (3) The figure of previous period/year have been re-grouped/re-arranged and/or recast wherever found necessary. (4) The Operations of the Company have been interrupted by Outbreak of COVID 19 & consequent lockdown in the Country since March 2020.

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
Shailendra Kumar Sharma (Managing Director)
DIN: 00432070

Place: Jaipur
Date: 14.07.2021

MANGALAM TIMBER PRODUCTS LIMITED
Birla Building, 9/1 R N Mukherjee Road, 10th Floor, Kolkata - 700 001
Regd. Office : Kusumi, Nabarangpur, Odisha - 764 059
Tel No: +91 6858 222148/142/053 Fax: +91 6858 222 042
Website : www.mangalamtimber.com, Email: admin@mangalamtimber.com
CIN: L02001OR1982PLC001101

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2021
Rs. in Lakhs

Sl.No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2021 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2021 (Unaudited)	Quarter ended 30.06.2020 (Unaudited)	Year ended 31.03.2021 (Audited)
1	Total Income	284.62	57.59	131.09	677.28
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or Extraordinary items)	(681.49)	(628.86)	(573.59)	(2732.81)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(681.49)	(628.86)	(573.59)	(2732.81)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(480.03)	(432.65)	(394.63)	(1880.15)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(482.86)	(448.10)	(393.25)	(1891.45)
6	Equity Share Capital	1832.74	1832.74	1832.74	1832.74
7	Other Equity				(9905.02)
8	Earnings per share (of Rs 10/- each) : Basic and Diluted	(2.62)	(2.36)	(2.15)	(10.26)

1 The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at the meeting held on 15th July 2021, and have been reviewed by the Statutory Auditors of the Company.

2 The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the Stock Exchanges websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website at www.mangalamtimber.com

3 The figure of the previous year/periods have been regrouped/rearranged wherever necessary.

4 The figures for three months ended 31st March, 2021 are arrived at as difference between audited figures in respect of the full financial year and the unaudited published figures up to nine months ended 31st December 2020.

By order of the Board
Vishwanath Chandak
Director
DIN:00313035

Place : Kolkata
Date : 15th July, 2021

WHITE ORGANIC RETAIL LIMITED
CIN: L01100MH2011PLC225123
Registered Office: 312A, Kailas Plaza Vallah Baug Lane, Ghatkopar (East) Mumbai 400077, Maharashtra, India.
Tel: +91-22-25011983, Telefax: +91-22-25011984, Email: info@whiteorganics.com, Website: www.whiteorganics.com

RECOMMENDATIONS OF THE COMMITTEE OF INDEPENDENT DIRECTORS ("IDC")

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of White Organic Retail Limited under Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ("Takeover Regulations") in relation to the Open Offer made by Suumaya Retail Limited ("Acquirer") together with Suumaya Industries Limited (Formerly known as Suumaya Lifestyle Limited) ("PAC") to the Public Shareholders of White Organic Retail Limited ("WORLD" or the "Target Company" or "TC") for the acquisition of Equity Shares of the Target Company.

Sr. No.	Particulars	Report
1	Date	July 15, 2021
2	Name of the Target Company	White Organic Retail Limited
3	Details of the Open Offer pertaining TC	The Open Offer is being made by the Acquirer for Acquisition up to 28,36,080 (Twenty-Eight Lakhs Thirty-Six Thousand and Eighty) Equity Shares of the face value of Rs. 10/- (Rupees Ten only) each representing in aggregate 26% (Twenty-Six percent) of the total paid up and voting equity share capital of the Target Company at an Offer price of Rs.37.45/- (Rupees Thirty-Seven and Forty-Five paise only) per fully paid up Equity Share payable in cash pursuant to Regulation 3(1) & 4 of SEBI (SAST) Regulations, 2011.
4	Name(s) of the Acquirer	Suumaya Retail Limited
5	Name(s) of the PAC	Suumaya Industries Limited (Formerly known as Suumaya Lifestyle Limited)
6	Name of the Manager to the offer	FEDEX SECURITIES PRIVATE LIMITED (Formerly known as Fedex Securities Limited) 3rd Floor, B Wing, Jay Chambers, Nanda Patkar Road, Vile Parle (E), Mumbai 400 057 Tel No.: +91 8104985149, Fax No.: 022 2618 6966 E-mail: mb@fedsec.in , Website: www.fedsec.in SEBI Registration Number: INM000010163 Investor Grievance E-mail: mb@fedsec.in , Contact Person: Yash Kadakia
7	Members of the Committee of Independent Directors ("IDC")	1. Mr. Pritesh Doshi - Chairman 2. Mrs. Jigna Thakkar - Member
8	IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity shares owned, any other contract/ relationship), if any	The Members of the IDC are Independent Directors on the Board of Directors of the Target Company. None of the members of the IDC hold any Equity Shares/ securities of the Target Company. None of the Members of the IDC have entered into any contract or have any relationship with the Target Company
9	Trading in the Equity shares/ other securities of the TC by IDC Members	None of the IDC members have traded in the Equity Shares of Target Company during 12 months prior to the date of the Public Announcement of the Offer on May 21, 2021
10	IDC Member's relationship with the acquirers (Director, Equity shares owned, any other contract/ relationship), if any	None of the members of the IDC have any contracts / relationships / directorship / holding Equity shares of the Acquirer.
11	Trading in the Equity shares/ other securities of the acquirer by IDC Members	Not Applicable.
12	Recommendation on the Open offer, as to whether the offer is fair and reasonable	The member of the IDC believe that the open offer made to the public shareholders of White Organic Retail Limited at the offer price of Rs. 37.45/- (Rupees Ten and paise Forty-Five only) per fully paid up Equity Shares of face value of Rs. 10/- (Rupees Ten only) each is fair and reasonable and the Open Offer is in conformity with provision of SEBI (SAST) Regulation 2011.
13	Disclosure of Voting Pattern of the meeting in which the open offer proposal was discussed	All the IDC members unanimously voted in favor of recommending the open offer proposal.
14	Summary of reasons for recommendation	IDC has evaluated the Public Announcement dated May 21, 2021, the Detailed Public Statement dated May 27, 2021 and Draft Letter of Offer dated June 04, 2021 and Letter of Offer dated July 12, 2021. The IDC has taken into consideration the following for making its recommendations: The Equity shares of TC are frequently traded within the meaning as provided in regulations 2 (j) of Takeover Regulations. As per the Equity Share Valuation report dated on May 21, 2021 of White Organic Retail Limited given by CA Nikul Jalan (Membership No. 112353) partner at Gupta Raj & Co., Chartered Accountants, having Firm Registration No.: 001687N, accordingly, the Offer Price is of equity share of Rs. 37.45/- (Rupees Thirty-Seven and Forty-Five paise only) per share. The Offer Price of Rs. 37.45/- (Rupees Thirty-Seven and Forty-Five paise only) per share is higher than price calculated after considering the parameters as specified under Regulation 8(2) of Takeover Regulations. The public shareholders of the Target Company are advised to independently evaluate the Open Offer and take an informed decision about tendering the Equity Shares held by them in the Open Offer.
15	Details of Independent Advisor (if any)	None
16	Any other matters to be highlighted	None

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the TC under the Takeover Code.

For the behalf of Committee of Independent Directors of
White Organic Retail Limited
Sd/-
Pritesh Doshi
Chairman - Committee of Independent Directors

Place: Mumbai
Date: July 15, 2021

